



## MINT SHORTS

## Household help platform Pronto raises \$11 mn in Series A funding

**Bangalore:** Household help platform Pronto has raised \$11 million in Series A funding led by General Catalyst and Glade Brook Capital, with participation from existing investor Bain Capital Ventures. The startup said the funding will support the onboarding and training of 10,000 more professionals, investment in quality assurance systems, and rollout of real-time operations technology that drives its shift-based model. Over the next 12-18 months, Pronto plans to expand beyond Gurugram into Mumbai, Bengaluru and other metros.

ROSHAN ABRAHAM

## Infosys to buy 75% stake in Telstra unit for \$153 million



**Bangalore:** Information technology services company Infosys said on Wednesday that it would take a 75% stake in Versent Group, a wholly owned unit of Australia's Telstra Group, for \$153 million (\$153 million). Versent Group provides cloud services to Australian organisations in sectors like finance, energy, utilities, government and education. Infosys said in a statement. The deal is expected to close by the second half of fiscal year 2026.

REUTERS

## Transition VC bets \$2 million on comms startup Commint

**Bangalore:** Deep-tech communications startup Commint has raised \$2 million in funding from energy transition-focused fund Transition VC, as it expands portfolio across smart metering rollout and unlocks opportunities in broader smart city applications such as smart lighting, water metering, and intelligent infrastructure management.

ROSHAN ABRAHAM

## Cureous Labs scores ₹1.66 cr seed funding for repositioning systems

**Bangalore:** Medtech startup Cureous Labs has raised ₹1.66 crore in a seed funding round led by Inflection Point Ventures (IPV), with participation from Anthill Ventures. The company will be using the funding to manufacture the first batch of Cureous' flagship automated patient repositioning systems, called Eturnal, to build inventory, to scale commercial operations through strategic hiring in sales, and also for business development.

ROSHAN ABRAHAM

## How Gen Z's digital lifestyle is changing fintechs' ops

Fintechs are now tailoring features to win GenZ early on in their financial journey

Somnaya Ramasubramanian &amp; Mansi Verma

BENGALURU/MUMBAI

**B**uyed by higher starting salaries and more disposable income, Gen Z—people born after 1996—are leading the transformation in the financial services business. Fintechs such as e-commerce platform Flipkart-backed super.money, Grip Broking Pvt. Ltd, and Scapia Technology Pvt. Ltd, are now tailoring features to win them early in their financial journey. From product design shifting from long-term, rigid products to flexible, high-engagement tools matching younger users' short attention spans and appetite for control, fintechs are rethinking their offerings.

Stride Ventures and Ancur Capital-backed retail investment platform Grip Invest introduced the "sell anytime" feature in March, allowing investors to sell bonds at any time after holding them for two months. Early results show improved retention, higher engagement, and lower customer acquisition costs. Grip's customer acquisition costs dropped by 25% as a result of higher conversion rates from new and existing users, according to Vaibhav Laddha, chief executive of the company.

"Most bonds are considered illiquid due to longer maturity periods. We launched the feature to create instant liquidity as the new generation is averse to long-term investment commitments," Laddha told *Mint*.

In July, the number of users under 25 years using Grip's services grew 5% year-on-year, underscoring the appetite among youngsters for alternative assets and fixed-income products.

Payments app super.money (Scapia Innovations Pvt. Ltd) has introduced a



India has the youngest workforce with a median age of 28 years.

ISTOCKPHOTO

rewards system that ships cashback on UPI payments made through its platform directly to the user's bank account. The feature has helped boost engagement rates by 2.5x over the last few months, with the number of transactions per user per month nearly doubling to 40. The platform had about 10 million monthly active users—with an average age of 26-27 years—as of July.

"We stayed away from coins and other rewards because there is general mistrust among users about their utility on digital platforms," said Prakash Silaria, the founder of super.money.

Peak XV-backed travel-focused fintech startup Scapia has also seen increasing interest from Gen Z for its travel now, pay later offering. "A stand-out behavioural shift is their use of EMIs. One-fifth of Gen Z travel bookings on Scapia are through EMIs. Prod-

also betting big on India's 300 million underserved but credit-worthy users.

Slice recently introduced a UPI-linked credit card that allows users to make QR code-based UPI payments using their approved credit limit. Rajan Bajaj, founder and CEO, Slice, had earlier told *Mint* that 5 million users have accessed Slice credit till June.

India boasts the youngest workforce population with a median age of 28 years, according to the Economic Survey of India 2024-25.

"There is a huge market opportunity around young professionals and even teenagers who are drawing their first paycheck and require more personalized solutions. They don't wish to manage money like older people do—they prefer agile, dynamic wealth management solutions over those offered by traditional banks and advisors," said Anirudh Gang, partner at venture capital firm Beevest, backer of BharatPe, Jupiter, and Smallcase, among others.

Younger users have a higher propensity for do-it-yourself investing, and many prefer to educate themselves rather than rely on traditional advisors. Grip's Laddha said, Grip launched the "quickstart" feature to allow first-time investors to invest as low as ₹100 and allow them to withdraw within short maturity windows.

Grip's "filter and compare" feature—which allows users to compare investment options on parameters like risk, return, and liquidity—is seeing 30% higher conversion rates among users who use the feature versus those who don't, Laddha said.

Super.money is also looking to introduce commerce on its platform to enhance user engagement. On 26 July, it introduced a flight booking option for users to transact more frequently.

*somnaya.ramasubramanian.com*  
For an extended version of this story, go to *livemint.com*.

## Fractal files draft papers for ₹4.9K cr share sale

Praymada C

praymada.c@livemint.com  
MUMBAI

**M**umbai-based artificial intelligence (AI) and analytics firm Fractal Analytics on Wednesday filed its draft red herring prospectus with the Securities and Exchange Board of India (Sebi) for a ₹4,900 crore initial public offering (IPO) targeted by the end of this financial year.


The company seeks to raise ₹1,270.3 crore in fresh capital, while existing investors will collectively sell shares worth ₹3,620.7 crore under the offer for sale option, the filing showed. Selling shareholders include QA Partners Ltd (an Apex Partners vehicle), TPG, GLM Family Trust, Satya Kumar Remala, and Rao Venkateswara Remala.

Last month, *Mint* was the first to report that the company is preparing to file draft papers for a listing after several delays and has hired Kotak Mahindra Capital, Morgan Stanley India, Axis Capital, and Goldman Sachs (India) to help with the process. The company is targeting a valuation of more than \$3 billion.

The Apex Funds-backed firm had first planned to go public in 2021 but deferred its plans amid weak market conditions.

Fractal will now join a growing list of Indian startups, including Pine Labs, Curefos, Capillary Technologies, Lenskart, Shiprocket, Groww, and Urban Co., that have filed draft IPO papers in recent months. Others such as Physics Wallah and Bluestone are also expected to go public soon.

For an extended version of this story, go to *livemint.com*.



JUNIPER

HOTELS

JUNIPER HOTELS LIMITED

(Formerly known as JUNIPER HOTELS PRIVATE LIMITED)

CIN: L55101MH1885PLC152053

Registered Office: Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai 400 055.

Email: [compliance@juniperhotels.com](mailto:compliance@juniperhotels.com); Website: [www.juniperhotels.com](http://www.juniperhotels.com)

EXTRACT FROM THE UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ In Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED				Year Ended March 31, 2025
	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended		
	June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025	June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total Income	19,820.45	25,525.33	17,831.30	85,566.35	22,725.06	28,695.04	20,481.69	97,561.19	
Profit before exceptional items and tax	3,729.02	7,293.86	1,771.13	15,419.36	3,505.14	7,345.46	1,308.96	14,996.93	
Exceptional Items	1,714.18	-	-	-	1,714.18	-	-	-	
Profit before tax	2,014.84	7,293.86	1,771.13	15,419.36	1,786.96	7,345.46	1,308.96	14,996.93	
Profit for the period	1,076.32	5,456.90	1,476.24	8,027.86	901.18	5,495.40	1,168.54	7,128.85	
Total Comprehensive Income for the period, net of tax	1,006.76	5,434.87	1,468.06	8,046.91	828.19	5,470.32	1,158.04	7,141.75	
Per Share equity share capital (Face Value Rs. 10/- per share)	22,250.24	22,250.24	22,250.24	22,250.24	22,250.24	22,250.24	22,250.24	22,250.24	
Other equity	-	-	-	2,47,629.52	-	-	-	2,50,415.64	
Earnings per equity share of face value of INR 10 each attributable to equity holders of the parent (EPS): Basic and Diluted (₹)	0.48	2.45	0.66	3.61	0.40	2.47	0.52	3.20	
*Not Annualised									

Notes to Financial Results

1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 as amended ("Listing Regulations"). The full format of the audited financial results are available on the Stock Exchange websites [www.secdisc.com](http://www.secdisc.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on Company's website [www.juniperhotels.com](http://www.juniperhotels.com).

For and on behalf of the Board of directors of Juniper Hotels Limited

Sd/-


Anur Kumar Saraf

Chairman and Managing Director

DIN: 90329172

Place: Mumbai

Date: August 12, 2025



CNH CAPITAL (CNH Industrial Capital India Private Limited) Registered Office: 4th Floor, Regency, No. 1, Bandra, Mumbai 400 050. Commercial Complex D4, Dabul, New Delhi South Delhi DL 110017 IN Statement under Regulation 52(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter and financial year ended June 30, 2025 (₹ in Millions)				
Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2025				
S.No.	Particulars	Quarter ended		
		30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)	30.06.2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	656.75	591.52	582.41
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	180.98	77.32	763.83
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	180.98	77.32	763.83
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	129.80	82.39	593.68
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	117.24	78.80	165.26
6.	Paid up Equity Share Capital	3,972.00	3,972.00	3,972.00
7.	Outstanding Redeemable Preference Shares	1,865.17	1,848.56	1,118.99
8.	Securities Premium Account	-	-	-
9.	Net Worth	5,637.17	5,620.56	5,090.96
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	15,027.59	14,063.23	12,249.41
11.	Debt to Equity Ratio	NA	NA	NA
12.	Debt to Equity Ratio	2.67	2.55	2.41
13.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.33	0.21	0.41
14.	(a) Basic	0.33	0.21	0.41
15.	(b) Diluted	NA	NA	NA
16.	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA
17.	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA
18.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
19.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
*Quarter end Basic EPS and Diluted EPS are not annualised				
Note 1: The above unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2025 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13 August 2025 and are limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company pursuant to the requirement of Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 (as amended) including relevant circulars issued by the SEBI from time to time.				
Note 2: The above is an extract of the detailed format of the quarter ended results filed with the Bombay Stock Exchange ("BSE") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full financial results are available on the website of BSE ( <a href="https://listing.bseindia.com">https://listing.bseindia.com</a> ).				
Note 3: For other items referred to in the sub-clause of the Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 the pertinent disclosures have been made to the BSE and can be accessed on ( <a href="https://listing.bseindia.com">https://listing.bseindia.com</a> ).				
Note 4: The results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard (Ind AS) 34 - "Interim Financial Reporting" as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India.				
For CNH Industrial Capital (India) Private Limited				
Sd/- Vishal Chaudhary Managing Director DIN No: 04852209				
Place: Gurugram Date: 13 August 2025				

UNITECH LIMITED CIN: L74999GJ1717PLC09720 Regd. Office: 6, Community Centre, Saket, New Delhi 110017 Tel: 011-26857338 E-mail: <a href="mailto:share.dept@unitechgroup.com">share.dept@unitechgroup.com</a> ; Web: <a href="http://www.unitechgroup.com">www.unitechgroup.com</a>	
Statement of Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2025	
The Board of Directors of the Company at its meeting held on 13 <sup>th</sup> August, 2025, approved the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated), for the quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2025.	
The investors can access the financial results alongwith Auditor's Review Reports on Company's website at <a href="https://www.unitechgroup.com/investor-relations/financial.asp">https://www.unitechgroup.com/investor-relations/financial.asp</a> and stock exchanges websites at <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> .	
Further, the full financial results can also be accessed by scanning the Quick Response Code (QR) provided herein.	
Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.	
For Unitech Limited Sd/- Yudvir Singh Malik Chairman & Managing Director	
Place: Gurugram Dated: 13 <sup>th</sup> August, 2025	

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD. (A Government of India Enterprise - Navaratna) CIN: 174999DL1999DCT01107	
STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025	
The Board of Directors of the Company on the recommendations of the Audit Committee, at its meeting held on August 13, 2025 has approved the Un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2025.	
The aforesaid financial results, along with the Limited Review Report, have been uploaded on the Company's website and website of BSE and NSE. The same is available at <a href="https://www.irctc.com/asset/images/quarterly/quarterlyresults/13082025.pdf">https://www.irctc.com/asset/images/quarterly/quarterlyresults/13082025.pdf</a> and can be accessed by scanning the QR code.	
For and on behalf of the Board of Directors Sd/- Sanjay Kumar Jain Chairman & Managing Director DIN: 99629141	
Place: New Delhi Dated: 13 <sup>th</sup> August, 2025	
Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.	
IRCTC Limited, 4 <sup>th</sup> Floor, Tower-D, World Trade Centre, Naraina Nagar, New Delhi - 110029	

DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED Corporate Identification Number: L5135DL1991PLC046758 Registered office: F-27, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 Corporate office: Plot No-18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana Tel: +91-124-4566300, E-mail: <a href="mailto:companysecretary@dil-rjcorp.com">companysecretary@dil-rjcorp.com</a> ; Website: <a href="http://www.dil-rjcorp.com">www.dil-rjcorp.com</a>	
Statement of Standalone and Consolidated financial results for the quarter ended on 30 June 2025 [Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]	
The Board of Directors of the Company at its meeting held on August 13, 2025 inter-alia considered and approved the Unaudited Financial Results of the Company (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended June 30, 2025 ("Financial Results").	
The Financial Results along with the Limited Review Report, have been disseminated on the Company's website at <a href="https://dil-rjcorp.com/wp-content/uploads/2025/08/financial-results.pdf">https://dil-rjcorp.com/wp-content/uploads/2025/08/financial-results.pdf</a> and can be accessed by scanning the QR Code.	
For and on behalf of Board of Directors of Devyani International Limited Sd/- Manish Dawar Whole time Director & CFO DIN: 00319476	
Place : Gurugram Dated : 13 August 2025	



